



पाठ 44 ^{わがし た}和菓子^を食べてから、^{まっちゃ の}抹茶^を飲みます
वागाशि ओ ताबेते कारा, माच्चा ओ नोमिमासु

アンナ	^{わがし} 和菓子はとても ^{あま} 甘いんですね。	जापानी मिठाइयाँ बहुत मीठी होती हैं न?
आन्ना 先生	वागाशि वा तोतेमो आमाइ देसु ने। ^{わがし} 和菓子 ^を 食べてから、 ^{まっちゃ} 抹茶 ^を 飲みます。	जापानी मिठाई खाने के बाद, माच्चा हरी चाय पीते हैं।
प्रोफेसर	^{まっちゃ} 抹茶 ^は 苦いかもしれません。 वागाशि ओ ताबेते कारा, माच्चा ओ नोमिमासु। माच्चा वा निगाइ कामोशिरेमासेन्।	हो सकता है कि माच्चा हरी चाय आपको कड़वी लगे।
アンナ	^{せんせい} 先生、 ^{あし} 足 ^が しびれました。いたたたた。	प्रोफेसर, मेरे पैर सो गए हैं।
आन्ना	सेन्सेइ, आशि गा शिबिरेमाशिता। इताताताता।	ओह, ओह।




व्याकरण सीखें

① क्रिया का ते-रूप + कारा (_ करने के बाद)

◆ कारा से पहले और बाद में क्रियाएँ लगती हैं। कारा से पहले क्रिया के ते-रूप का इस्तेमाल होता है। यह दर्शाता है कि एक क्रिया के बाद दूसरी हो रही है।

उदाहरण) वागाशि ओ ताबेते कारा, माच्चा ओ नोमिमासु।
(जापानी मिठाई खाने के बाद, माच्चा हरी चाय पीते हैं।)



② _ कामोशिरेमासेन् (_ हो सकता/सकती है

उदाहरण) निगाइ कामोशिरेमासेन्। ⇔ आमाइ कामोशिरेमासेन्।
(कड़वी हो सकती है।) (मीठी हो सकती है।)


... ㄥ ㄨ ... ㄨ ㄥ ... ㄥ ㄨ ... ㄨ ㄥ ... ㄥ ㄨ ... ㄨ ㄥ ... ㄥ ㄨ ... ㄨ ㄥ ... ㄥ ㄨ ... ㄨ ㄥ ...



शब्दों की पोटली



यह शब्द, हाथ पैरों के सुन्न होने या सो जाने पर होने वाला अहसास बताता है।



यह शब्द, बिजली के झटके जैसा अहसास बताता है।